

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

No. 45/2018 – Central Tax

G.S.R. 856(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments—

- (i) in notification number 21/2017 – Central Tax dated the 08th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 997(E), dated the 08th August, 2017; and
- (ii) in notification number 56/2017 – Central Tax dated the 15th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1412(E), dated the 15th November, 2017, namely:—

In the said notifications, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018 – Central Tax dated the 06th August, 2018 published in the Gazette of India *vide* number G.S.R.742(E), dated the 06th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.”.

[F.No.349/58/2017-GST (Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Foot Note: 1. The principal notification number 21/2017 – Central Tax dated the 08th August, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.997(E), dated the 08th August, 2017.

2. The principal notification number 56/2017 – Central Tax dated the 15th November, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.1412(E), dated the 15th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2018

सं. 46 /2018 -- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 857(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1164(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 35/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017; और
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 268(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2018,

निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने सा.का.नि. संख्यांक 742(अ) तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 31/2018-केंद्रीय कर तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।”।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव